

## सहयोग की घोषणा

रचनात्मकता की अभिव्यक्ति और प्रचार-प्रसार मानवता के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत लाभ होता है। विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न तरीकों से कलात्मक प्रामाणिकता प्रकट होती है, लेकिन इसका आधार मूल मान्यताएं हैं, जो मनोरंजन, प्रेरणा, चुनौती और उत्तेजित करती हैं। दुनिया भर में लेखक, निर्देशक, कलाकार, निर्माता, शिल्पकार, शिल्पकार, उत्पादन कंपनियाँ, वितरक और मंच, विचारों के स्वस्थ और निरंतर प्रवाह से खुद को और समाज को लाभान्वित करते हैं।

बौद्धिक संपदा वह आधार होता है, जिस पर वैश्विक आर्थिक उद्योग विकसित होता है और यह वास्तव में पृथ्वी पर लगभग हर देश में फलता-फूलता है। यह समाज के लिए इस जीवंत और मूल्यवान योगदान के निरंतर विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वाणिज्यिक और दार्शनिक दोनों दृष्टिकोणों से रचनात्मकता का निरंतर आदान-प्रदान, पोषण और संरक्षण हो।

**सलाह देने, आदान-प्रदान करने और सहयोग करने के लिए, हम निम्नलिखित रचनात्मक सत्य को स्वतः प्रमाणित मानते हैं:**

1. यह कहीं भी किसी का भी अधिकार है कि वह काल्पनिक या गैर-काल्पनिक रचना करे।
2. रचनात्मकता व्यक्त करने के लिए मीडिया या पद्धति की कोई सीमा नहीं होती।
3. कलाकार के विचार उत्तम और मूल्यवान होते हैं और इनके मौद्रिक मूल्य अंतर्निहित होते हैं।
4. निर्मित कार्य के मूल्य का मोलभाव संभव होता है, लेकिन उद्योग की अखंडता वैश्विक बौद्धिक संपदा के लिए अबाध्य होती है।
5. सृजन, निष्पादन, बिक्री और वितरण के साधन अलग-अलग देशों में, मंच से मंच तक विभिन्न होते हैं, लेकिन सभी विधियों में जो अब तक ज्ञात हैं या जो आगे ज्ञात होंगी, रचनाकारों और निर्माताओं के सम्मान और पारिश्रमिक की अनुमति होनी चाहिए।
6. बौद्धिक संपदा रक्षणीय विचार होता है और इसका कभी भी प्रत्यक्ष अनुकरण या चोरी से उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। किसी की आत्मा को तकलीफ न दें।
7. रचनात्मकता पर केंद्रित अच्छा वैश्विक उद्योग खुला और मुक्त-विचारों वाला होना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय अनुबंध मानकों और समय पर भुगतान का सम्मान करता हो।
8. कानूनी विवादों को पारस्परिक रूप से सम्मानजनक तरीके से हल किया जाना चाहिए, जहां बड़े और छोटे निर्माता दोनों और कंपनियां पारदर्शिता और प्रतिष्ठा के साथ व्यवहार करती हैं।
9. एक पक्ष को संरक्षित करने वाली व्यापारिक बाधाएं, वास्तव में दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इनसे बचा जाना चाहिए।
10. अखंडता और वाणिज्यिक हितों के मुक्त प्रवाह पर आधारित अच्छा वैश्विक उद्योग, सभी की नैया पार लगाएगा और व्यापार की वृद्धि के लिए हर जगह ठोस आधार प्रदान करेगा।

हम, वैश्विक बौद्धिक संपदा उद्योग के अधोहस्ताक्षरी सदस्य, जो सामग्री के निर्माण, अधिग्रहण, बिक्री,

निष्पादन और वितरण में लगे हुए हैं, इन मूल्यों को सतत रूप से बनाए रखने, और दुनिया भर में विचारों की रक्षा, संरक्षण और व्यापार करने के लिए बेहतर समझ और दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लेते हैं।

**जनरल बोर्ड FRAPA, कान्स, 16 अक्टूबर 2018**